

स्टेनो टायपिस्ट

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश :-

- 1- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र मे निर्धारित तिथि व समय पर कृति इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एण्ड इंजीनियरिंग, बलौदा बाज़ार रोड, ज्ञान गंगा स्कूल के पास, नरदहा, रायपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हों। यदि आप निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मान लिया जावेगा कि आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है ।
- 2- अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक योग्यता, आयु, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु) मूल रूप से अवश्य लेकर आर्यें। साथ ही उक्त समस्त दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित प्रति भी साथ में लायें। मूल प्रमाण पत्रों के चेक करने के पश्चात एक - एक स्व अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
- 3- अभ्यर्थी यदि शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र भी साथ में लायें।
- 4- विवाहित अभ्यर्थी विवाह संबंधी संलग्न अभिवचन पत्र की पूर्ति कर साथ लायें।
- 5- क्रमांक 2, 3 व 4 में उल्लेखित दस्तावेज साथ में न लाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 6- यथा आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को हिन्दी शीघ्रलेखन की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा । इस संबंध में जाँच समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- 7- 300 शब्द के मैटर को 5 मिनट में डिक्टेसन दिया जायेगा तथा कम्प्यूटर में डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का टेस्ट 417 की डिप्रेशन का 5 मिनट का टेस्ट लिया जायेगा। लिप्यांतरण एवं कम्प्यूटर टाइपिंग हिंदी के फॉन्ट कृतिदेव/यूनिकोड-

मंगल में करना होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

- 8- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र होने पर ही नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा।
- 9- अभ्यर्थी अपने साथ वर्तमान के पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ दोनो प्रवेश पत्रों (विधानसभा की प्रति तथा आवेदक की प्रति) में यथास्थान पृथक-पृथक चस्पा कर लाएं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की दोनों प्रति (विधानसभा की प्रति तथा आवेदक की प्रति) का प्रिंट आउट लेकर आना है। विधानसभा की प्रति परीक्षा के दौरान जमा करा ली जाएगी। साथ ही अपना फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, या शासन द्वारा अधिकृत अन्य पहचान पत्र भी लायें।
- 10-उक्त फोटोग्राफ पर परीक्षा कक्ष में हस्ताक्षर करना होगा।
- 11-परीक्षा संबंधी अनुदेश कॉन्फ्रेंस हॉल में चस्पा रहेगा, जिसे अभ्यर्थी पढ़ लें। उनका पालन सुनिश्चित करें।
- 12-अभ्यर्थी अपने साथ पेंसिल पेन लेकर आयें। शार्टहैण्ड नोट बुक परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर प्रदान की जाएगी।
- 13-परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर परीक्षा स्थल में न जायें। परीक्षा स्थल में पर्स, पाऊच तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आदि को लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है।
- 14-मौखिक साक्षात्कार के समय प्रवेश पत्र मांगा जा सकता है। अतः इसे सुरक्षित रखें।
- 15-निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।